

WE ARE
MACMILLAN.
CANCER SUPPORT

‘मैंने अपने पेशाबमें
खून देखा

और मैं डॉक्टर से
मिलने गया।’

David



गुर्दे और मूलाशय के कैंसर के लक्षण

हर वर्ष यूके में 20,000 से अधिक लोगों को मूलाशय अथवा गुर्दे का कैंसर होने का निदान किया जाता है। ये कैंसर पुरुषों में और 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में अधिक साधारण होते हैं।

कौन-से परिवर्तन खोजना और अपने डॉक्टर से कब मिलना यह जानने से सचमुच फर्क पड़ सकता है। अपने लक्षणों से डरें नहीं - उनकी जाँच कराएं।

आपको इनमें से कोई भी लक्षण हों, तो अपने डॉक्टर से मिलें:

- आपके पेशाब में खून, भले ही वह एक ही बार हो।
- अचानक या फौरन पेशाब करना पड़ना।
- पेशाब करते समय दर्द या जलन।
- आपके पेट में कोई गट्टा।

ये लक्षण कैंसर के अलावा अन्य चीज़ों से हो सकते हैं, जैसे कि संक्रमण, मूलाशय में पत्थर (ब्लैडर स्टोन्स) या गुर्दे में पत्थर (किडनी स्टोन्स)। लेकिन अपना निदान खुद करने की कोशिश न करें - अपने डॉक्टर से मिलें। यह आपकी जान बचा सकता है। अगर आपको कैंसर हो, तो इसके बारे में जितना जल्दी पता चलेगा, इसका सफलतापूर्वक इलाज कर पाने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी।

अपने लक्षणों की जाँच करा कर आप अपने डॉक्टर का समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं।

कैंसर का जितना जल्दी पता चल जाए, उसके ठीक होने की उतनी अधिक संभावना है।

यदि आपको सहायता की आवश्यकता है या किसी से बस बात करना चाहते हैं, तो मैकमिलन को निःशुल्क 0808 808 00 00 पर कॉल करें या यह साइट देखें macmillan.org.uk